

प्रमाण परीक्षा (फोल्डर नं. ०११०२)
मूल-आचार्य विद्यानन्द – सम्पादक-दरबारीलाल कोठिया

मुख्य टाइटल	
प्रकाशकीय	
सम्पादकीय	
प्राक्कथन	
प्रस्तावना-विषयानुक्रम	
प्रस्तावना	
प्रमाण-परीक्षा -----	१
ग्रन्थ परिचय -----	१
नाम -----	१
भाषा व शैली -----	१
उद्देश्य व प्रयोजन -----	२
विभाग -----	२
विषय परिचय -----	३
मङ्गलाचरण -----	४
प्रमाण लक्षण -----	५
वैशेषिक दर्शन -----	५
न्याय दर्शन -----	५
मीमांसा दर्शन -----	६
सांख्य दर्शन -----	६
बौद्ध दर्शन -----	६
जैन चिन्तकों द्वारा प्रमाणस्वरूप विमर्श -----	७
कुन्दकुन्द -----	७
गृद्धपिच्छ -----	८
समन्तभद्र -----	८
सिद्धसेन -----	९
पूज्यपाद -----	९
अकलंक -----	११
विद्यानन्द -----	१२
माणिक्यनन्दि -----	१३
देवसूरि -----	१३
हेमचन्द्र -----	१३
अभिनव धर्मभूषण -----	१४

प्रमाण परीक्षामें प्रमाणस्वरूप-मीमांसा -----	१५-५२
सन्निकर्ष परीक्षा -----	१५
सम्यग्ज्ञानमें स्वार्थव्यवसायात्मकत्वकी सिद्धि -----	२०
बौद्धाभिमत अव्यवसायात्मक प्रत्यक्षकी मीमांसा -----	२१
अनुमानसे सविकल्पक प्रत्यक्षकी सिद्धि -----	३१
विज्ञानाद्वैत-परीक्षा -----	३१
परमब्रह्म-परीक्षा -----	३३
अस्वसंवेदिज्ञान-परीक्षा -----	३७
परोक्षज्ञान-परीक्षा -----	४४
प्रधानपरिणामज्ञानपरीक्षा -----	४७
तत्त्वोपप्लव-परीक्षा -----	४८
प्रामाण्य-परीक्षा -----	५२-५३
प्रमाणसंख्या-परीक्षा -----	५३-१०५
प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाणद्वयसिद्धि -----	५३
प्रत्यक्षैकप्रमाणसमीक्षा -----	५३
प्रत्यक्षानुमानप्रमाणद्वय-समीक्षा -----	५७
तर्कप्रमाण विमर्श -----	५९
वैशेषिकमत-समीक्षा और तर्कप्रमाण सिद्धि -----	६२
सांख्यादिमत समीक्षा -----	६४
स्मृतिप्रमाण-विमर्श -----	६६
प्रत्यक्ष विमर्श -----	६७
प्रत्यक्ष भेद -----	६९
इन्द्रिय-प्रत्यक्ष -----	७१
अनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष -----	७१
अतीन्द्रिय-प्रत्यक्ष -----	७२
विकल-प्रत्यक्ष -----	७२
सकल-प्रत्यक्ष -----	७२
विकलप्रत्यक्ष भेद -----	७२
अवधिज्ञान -----	७२
मनःपर्ययज्ञान -----	७३
केवलज्ञान विमर्श -----	७४
परोक्षका विशेष विमर्श -----	७४
स्मृति विमर्श -----	७५
प्रत्यभिज्ञान विमर्श -----	७५
तर्क विमर्श -----	७९-९७

अनुमान विमर्श-----	७९
हेतुस्वरूप विमर्श -----	७९
त्रैरूप्यहेतुलक्षण-समीक्षा -----	८०
पांचरूप्यहेतुलक्षण समीक्षा -----	८५
हेतु भेद विमर्श -----	८६
विधि-साधक-विधि साधन -----	८६
कार्यहेतु -----	८६
कारणहेतु -----	८६
अकार्यकारणहेतु -----	८६
व्याप्यहेतु -----	८६
सहचरहेतु -----	८७
पूर्वचरहेतु -----	८७
उत्तरचरहेतु -----	८७
साक्षात् प्रतिषेध साधक-विधि साधन -----	८७
विरुद्ध कार्य -----	८७
विरुद्ध कारण -----	८८
विरुद्ध अकार्यकारण -----	८८
विरुद्ध व्याप्य -----	८८
विरुद्ध सहचर -----	८८
विरुद्ध पूर्वचर -----	८८
विरुद्ध उत्तरचर -----	८८
परम्परा प्रतिषेधसाधक विधिसाधन -----	८८
कारणविरुद्धकार्य -----	८८
व्यापकविरुद्धकार्य -----	८९
कारणव्यापक विरुद्धकार्य -----	८९
व्यापककारणविरुद्धकार्य -----	८९
कारणविरुद्धकारण -----	८९
व्यापकविरुद्धकारण -----	८९
कारणव्यापकविरुद्ध कारण -----	८९
व्यापककारणविरुद्धकारण -----	८९
कारणविरुद्धव्याप्य -----	८९
व्यापकविरुद्धव्याप्य -----	८९
कारणव्यापकविरुद्धव्याप्य -----	९०
व्यापककारणविरुद्धव्याप्य -----	९०
कारणविरुद्धसहचर -----	९०

व्यापकविरुद्धसहचर -----	९०
कारणव्यापकविरुद्धसहचर -----	९०
व्यापककारणविरुद्धसहचर -----	९०
विधिसाधक-प्रतिषेधसाधन -----	९१
विरुद्धकार्यानुपलब्धि -----	९१
विरुद्धकारणानुपलब्धि -----	९१
विरुद्धस्वाभावानुपलब्धि -----	९१
विरुद्धसहचरानुपलब्धि -----	९१
विधिप्रतिषेधक-प्रतिषेधसाधन -----	९१
अविरुद्धकार्यानुपलब्धि -----	९१
अविरुद्धकारणानुपलब्धि -----	९२
अविरुद्धव्यापकानुपलब्धि -----	९२
अविरुद्धसहचरानुपलब्धि -----	९२
अविरुद्धपूर्वचरानुपलब्धि -----	९२
अविरुद्धउत्तरचरानुपलब्धि -----	९२
बौद्धसम्मत हेतुभेद परीक्षा -----	९३
न्यायसम्मत हेतुभेद परीक्षा -----	९३
सांख्यसम्मत हेतुभेद परीक्षा -----	९५
साध्यस्वरूप विमर्श -----	९६
स्वार्थानुमान विमर्श -----	९६
परार्थानुमान विमर्श -----	९६
वचनात्मक परार्थानुमान-मीमांसा -----	९६
वचनात्मक परार्थप्रत्यक्षका आपादन -----	९६
श्रुतज्ञान विमर्श-----	९७
श्रुतज्ञान स्वरूप -----	९७
श्रुतज्ञान बेद -----	९८
श्रुतकी कथंचित् पौरुषेय-अपौरुषेयसिद्धि -----	९९
श्रुतके आर्ष-अनार्ष भेद -----	१०३
वेद-मीमांसा -----	१०३
प्रमाणविषय-परीक्षा -----	१०५-१०६
प्रमाणका विषय द्रव्य पर्यायात्मक -----	१०५
केवल पर्याय प्रमाण का विषय नहीं है -----	१०५
केवल द्रव्य भी प्रमाण का विषय नहीं है -----	१०६
प्रमाणफल परीक्षा-----	१०६-११०
प्रमाणका फल कथंचित् भिन्न और कतंचित् अभिन्न है -----	१०७

प्रमाणका साक्षात् फल -----	१०७
प्रमाणका परम्पराफल -----	१०७
प्रमाणफलको भिन्न स्वीकार करनेमें दोष -----	१०८
सर्वथा अभिन्न मानने में दोष -----	१०८
संवृत्तिसे प्रमाण फल व्यवहार करने में दोष -----	१०९
ग्रन्थकार -----	१११-१२०
विद्यानन्द-परिचय -----	१११
जैनदर्शनको उनकी देन -----	११३
कृतियाँ -----	११३
नया चिन्तन -----	११५
भावना विधि नियोग -----	११५
जाति समीक्षा -----	११६
सह-क्रमानेकान्तकी परिकल्पना -----	११६
व्यवहार और निश्चय द्वारा वस्तु-विवेचन -----	११८
उपादान और निमित्त का विचार -----	११८
परिशिष्ट -----	१२१
प्रमाण परीक्षा – विषयसूची	
प्रमाणलक्षण परीक्षा-----	१-२८
सम्यग्ज्ञानप्रमाणसिद्धि -----	१
सन्निकर्ष-परीक्षा -----	१-५
सम्यग्ज्ञानमें स्वार्थ व्यवसायात्मकत्वसिद्धि -----	५
अव्यवसायात्मकत्व परीक्षा -----	५-१२
अर्थाव्यवसायात्मकत्व परीक्षा -----	१३
योगाचारमतपरीक्षा -----	१४
वेदान्तमत-परीक्षा-----	१४
स्वप्नज्ञानमें अर्थ व्यवसायात्मकत्व सिद्धि -----	१६
अस्वसंवेदिज्ञान परीक्षा -----	१७
परोक्षज्ञान परीक्षा -----	२१
प्रधानपरिणामज्ञान परीक्षा -----	२३
भूतचैतन्य परीक्षा -----	२४
तत्त्वोपप्लव परीक्षा -----	२४
अद्वैत-परीक्षा -----	२७
प्राणाण्य-परीक्षा -----	२७
प्रमाणसंख्या परीक्षा -----	२८-६५
प्रमाणद्वय सिद्धि -----	२८-३७

प्रत्यक्षैकप्रमाण परीक्षा -----	२८-३०
प्रत्यक्षानुमानप्रमाणद्वय परीक्षा -----	३१-३४
वैशेषिकमत परीक्षा -----	३४-३५
सांख्यमत-परीक्षा -----	३५
नैयायिकमत परीक्षा -----	३५
प्राभाकर-परीक्षा -----	३५
भाट्टमत-परीक्षा -----	३५
प्रत्यक्ष सिद्धि -----	३७-४१
प्रत्यक्ष स्वरूप -----	३७
प्रत्यक्ष भेद -----	३८
स्वसंवेदनप्रत्यक्षपरीक्षा -----	३९
इन्द्रियप्रत्यक्ष -----	३९
इन्द्रियप्रत्यक्षभेद -----	३९-४०
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष -----	४०
अतीन्द्रियप्रत्यक्ष -----	४०
अतीन्द्रियप्रत्यक्षभेद -----	४०
अवधिज्ञान -----	४०
मनःपर्ययज्ञान -----	४०
केवलज्ञान -----	४१
परोक्ष-सिद्धि -----	४१-६५
परोक्ष स्वरूप -----	४१
परोक्ष भेद -----	४१
मतिज्ञान -----	४१
श्रुत ज्ञान -----	४१
परोक्षके दार्शनिक भेद -----	४२
स्मृति -----	४२
प्रत्यभिज्ञा -----	४२
तर्क -----	४४
अनुमान -----	४५-४८
त्रैरूप्य परीक्षा -----	४५-४९
पाँचरूप्य-परीक्षा -----	४९
साधन-लक्षण -----	४९
साधन भेद -----	४९-५७
साध्य-लक्षण -----	५७
श्रुत -----	५८-६५

प्रमाणविषय परीक्षा -----	६७
प्रमाणफल परीक्षा -----	६६